

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)
एक मिनिरत्न कंपनी
(अंग एक का .लि इंडिया कोल)



Central Coalfields Limited

(A Govt. of India Undertaking)
A Miniratna Company
(A subsidiary of Coal India Ltd.)

प्रति/ To,

(द्वारा उचित माध्यम / THROUGH PROPER CHANNEL)

विषय: आवास-भत्ता के लिए आवेदन प्रपत्र (अधिकारी/ कर्मचारी) / FORM OF APPLICATION FOR HRA (EXECUTIVE/NON - EXECUTIVE)

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | आवेदक का नाम (हिंदी में) NAME OF APPLICANT(In capital Letters) | |
| 2. | ईआईएस सं./ EIS NO. | |
| 3. | पदनाम / DESIGNATION | |
| 4. | विभाग/अनुभाग/ DEPARTMENT/ SECTION | |
| 5. | पदस्थापन का स्थान/ PLACE OF POSTING | |
| 6. | मूल वेतन/ BASIC PAY | |
| 7. | आवास का पता ADDRESS OF THE HOUSE OCCUPIED | |
| 8. | दूरभाष/ संपर्क Mobile No./ Contact no. | |
| 9. | क्या मकान किराएया निजी/पिता/माता/ पत्नी के स्वामित्व में है WHETHER RENTED OR OWNED BY HIM /FATHER/ MOTHER/ WIFE | |
| 10. | यदि किराए के आवास में निवास करते हैं, तो किराया भुगतान का प्रमाण दें IF RESIDING IN RENTED HOUSE, PROOF OF RENT PAID | |
| 11. | दावा किया गया आवासीय भत्ता HOUSE RENT ALLOWANCE CLAIMED | |
| 12. | जिस तिथि से दावा किया गया है DATE FROM WHICH CLAIMED | |
| 13. | क्या यह प्रथम दावा है अथवा पूर्वमें दी गई स्वीकृति में संशोधन है IS THIS THE FIRST CLAIM OR IS MODIFICATION OF A SANCTION GIVEN EARLIER | |
| 14. | प्रपत्र "ए" में घोषणा (संलग्न) DECLARATION IN FORM "A" ATTACHED | |
| 15. | पति या पत्नी के पदस्थापन का स्थान Place of Posting of Spouse | |
| 16. | पति/पत्नी को आवास भत्ता मिल रहा है, हां/नहीं Spouse getting HRA, Yes /No | |

प्रमाण-पत्र/ CERTIFICATE

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे कंपनी द्वारा कोई भी आवास आवंटित नहीं किया गया है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिया गया विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

I Certify that I have not been allotted any house owned or controlled by the Company. I certify that the particulars given by me as above are correct to the best of my knowledge.

आवेदक का हस्ताक्षर/
SIGNATURE OF THE
APPLICANT

दस्तावेजों की छायाप्रति (जैसा की लागू हो)/Copy of Documents (As the case may be).

- नियुक्ति पत्र/ स्थानांतरण पत्र / Appointment letter/Transfer letter.
- कार्यभार-ग्रहण प्रतिवेदन/नियमितीकरण/ Joining report/Regularization.
- वेतन-पर्ची / Pay Slip.
- निजी आवास : डीड/ टैक्स-रसीद / Own House: Deed/ Tax Receipt.
- निजी आवास: बिजली बिल / Own House: Electricity bill.
- किराये का मकान: पता का प्रमाण/ Rented House: Address proof.
- रिलीज़ पत्र/ Release letter.
- पूर्व पदस्थापित स्थान पर आवास खाली करने का प्रमाण/ Quarter vacation report at previous place of posting.

घोषणा / DECLARATION

मैं एतद्वारा अपनी पात्रता के अनुरूप मकान किराया भत्ते का दावा करने के लिए निम्नलिखित की घोषणा करता हूँ/thereby declare the following for claiming House Rent Allowance as per my entitlement:

मैं निम्नलिखित पते पर निवास कर रहा हूँ जो निजी/ पत्नी/पिता/माता/बच्चों के स्वामित्व का मकान है अथवा किराये पर है।/ That I am residing at the following address which is the house owned by me / my wife / father / mother / children or on rental basis.

यह कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ निवास या आवास साझा नहीं कर रहा हूँ जिसे आवास-भत्ता प्राप्त हो रहा है अथवा सीआईएल/ अनुषंगी कंपनी/सरकार अथवा अन्य सार्वजनिक उपक्रम द्वारा लीज पर लिया गया आवास प्रदान किया गया है।/ That I am not residing or sharing the accommodation with any person who is getting HRA or provided with accommodation owned by or taken on lease by CIL/Subsidiaries/ Government or PSUs.

किसी भी स्थिति में परिवर्तन होने पर मेरे द्वारा कंपनी को तुरंत सूचित किया जाएगा।/ Any change in the status shall be intimated by me immediately to the company.

हस्ताक्षर/ Signature

दिनांक / Date : _____
नाम / Name : _____
पदनाम / Designation : _____
आवसीय पता /Residential Address : _____